

सफलता / बसना पुलिस ने की कार्रवाई, 1.75 लाख के नकली नोट जब्त



- सरगना ने पुलिस पर तानी थी एयर गन लेकिन घेरेबंदी कर टीम ने उसे साथी के साथ पकड़ा, चार गिरफ्तार

Hindi News | Local | Chhattisgarh | Raipur | Mahasamund

Settling police crackdown, fake notes worth 1.75 lakh seized

Jun 30, 2020, 04:00 AM IST

महासमुंद. नकली नोट छापने और उसे खपाने वाले 4 लोगों को बसना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी में एक छत्तीसगढ़ व तीन ओडिशा के रहने वाले हैं। ये लोग बसना क्षेत्र में नकली नोट खपाने का प्रयास कर रहे थे। पकड़े गए लोगों से पूछताछ के बाद टीम ने ओडिशा में दबिश देकर मुख्य सरगना और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया। इस दौरान आरोपियों ने पुलिस पर एयर गन तान दी और झड़प भी हुई, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से आरोपी पकड़े गए। इन आरोपियों पर पुलिस ने धारा 489 क, ग, घ ड, 34 के तहत अपराध दर्ज कर जेल भेज दिया है। उनसे करीब 1.75 लाख रुपए के नकली नोट जब्त किए गए हैं।

पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि नकली नोट के मुख्य सरगना ग्राम मुनेकेल थाना पाईकमाल जिला बरगढ़ ओडिशा निवासी सतपथी साहू (45) सहित ग्राम कुरकुपाली थाना झारबंद जिला बरगढ़ ओडिशा निवासी बिसीकेशन प्रधान (60), ग्राम पुरेना थाना पाईकमाल ओडिशा निवासी प्रदीप धुर्वा (35) एवं ग्राम टेमरी थाना सांकरा जिला महासमुंद निवासी जयंत यादव (36) को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 200 रुपये के 1.75 लाख रुपये के नकली नोट, एयर गन, एक बंडल सफेद पेपर, कलर प्रिंटर, मोबाइल व बाइक जब्त की गई है। एसपी ने बताया कि आरोपी 200 रुपये के नकली नोट छापकर इसे पेट्रोल पंप व शराब की दुकानों में खपाते थे। आरोपी नोट खपाने के लिए छत्तीसगढ़ दूसरी बार आए थे। वहीं मुख्य सरगना ओडिशा में एक बार पूर्व में भी नकली नोट के मामले में जेल जा चुका है।

दो संदिग्ध को पुलिस ने पकड़ा तो हुआ खुलासा

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि रविवार की सुबह मुखबिर की सूचना पर ग्राम धानापाली के आगे बसना रोड पर बिना नंबर की एक बाइक और स्कूटी सवार दो लोगों को पकड़ा गया था। पूछताछ के दौरान एक ने खुद का नाम जयंत यादव (36) ग्राम टेमरी थाना सांकरा जिला महासमुंद और बिसीकेशन प्रधान (60) ग्राम कुरकुपाली थाना झारबंद जिला बरगढ़ ओडिशा का रहने वाला बताया। दोनों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ करने पर नकली नोट खपाने की बात सामने आई। टीम ने तलाशी के दौरान दोनों से 75 हजार रुपए के नकली नोट जब्त किए। इसके बाद आरोपियों ने मुख्य सरगना ग्राम मुनेकेल थाना पाईकमाल जिला बरगढ़ सतपथी साहू को बताया।

आसान नहीं था मुख्य आरोपी को पकड़ना क्योंकि पूरा गांव उसके लिए टूट पड़ता है

नकली नोट खपाने वाले आरोपियों को पकड़ने बाद मैंने तत्काल इस मामले की पूरी जानकारी एसपी को दी। उन्होंने बरगढ़ एसपी पद्मिनी साहू से फोन पर चर्चा कर पूरा प्रकरण बताया, ताकि मुख्य आरोपी को पकड़ा जा सके। उन्होंने मदद करने का आश्वासन दिया। सर से ऑर्डर मिलने के बाद मैं और मेरी टीम दो बाइक और दो बड़ी गाड़ी में सुबह 10.30 बजे मुख्य आरोपी के गांव रवाना हुई। पहले ही मैंने पकड़े गए आरोपी जयंत यादव से मुख्य आरोपी को नकली नोट खपाने के लिए 2 लाख के लिए फोन कराया। सतपथी साहू ने मुनेकेल गांव के पास स्थित वाइन शॉप के पास 1 लाख लेकर आने की बात कही। कुछ देर बाद हमारी टीम बरगढ़ पहुंची। ओडिशा पुलिस ने बताया कि उस गांव में मुख्य आरोपी को पकड़ना खतरनाक हो सकता है। क्योंकि पहले भी उस गांव में आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस पर ग्रामीण हमला कर चुके हैं। आखिरकार हमारी टीम धीरे-धीरे मुनेकेल गांव के वाइनशॉप के आसपास जाकर फैल गई। मैं जयंत के साथ छिपा हुआ था। लेकिन पता नहीं कैसे मुख्य आरोपी को आभास हो गया और उसने मौके पर आने से मना कर दिया। हालांकि कुछ देर बाद वह अपने साथी प्रदीप धुर्वा के साथ बाइक क्रमांक ओडी 17 पी 3422 में रुपये लेकर आया। मौके पर टीम ने उसे चारों ओर से घेर लिया। तभी सतपथी साहू ने टीम पर गन तान दी, लेकिन वह एयरगन थी। टीम उसे पकड़ने वाली थी कि सतपथी और उसका साथी भागने लगा। टीम के साथ उसकी झूमा-झपटी हुई। टीम ने दोनों को पकड़ लिया और 200-200 के 1 लाख रुपए के नकली नोट बरामद कर लिए।

Source:

<https://www.bhaskar.com/local/chhattisgarh/raipur/mahasamund/news/settling-police-crackdown-fake-notes-worth-175-lakh-seized-127460940.html>